



प्रेस विज्ञप्ति

4 सितंबर 2020

GLOBALG.A.P. ने G.A.P. पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन मांगे सकारात्मक प्रभाव के साथ अभिनव समाधान

कोलोन, जर्मनी: GLOBALG.A.P. ने इस हफ्ते घोषणा यह की कि G.A.P. पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन अब स्वीकार किए जा रहे हैं।

ये G.A.P. पुरस्कार दुनिया भर के किसानों को उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने और अच्छी कृषि पद्धतियों को लागू करने में उनके प्रयासों के लिए उद्योग से सम्मान हासिल करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये जज उन आवेदकों की तलाश करते हैं, जिन्होंने ऐसे, अभिनव समाधानों को विकसित किया है जो न केवल उनके खेतों और राजस्व पर बल्कि उनके कर्मियों, पर्यावरण और समुदायों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वे ऐसे उत्पादकों की भी खोजते हैं जो अग्रणी परिवर्तन के लीडर रहे हैं और उनके देश में संबंधित नीतियों को सबसे पहले लागू करते हैं।

“हम जानते हैं कि सारी दुनिया के किसानों के लिए कोविड-19 संकट के बावजूद हर समय उच्च क्वालिटी का आहार हमें प्रदान करने के साथ-साथ अपने परिवार के साथ बने रहना और भविष्य तथा आगे के विकास में निवेश करना कितना कठिन कार्य है। हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो अनथक रूप से हमारे लिए खड़े हैं। हमें अधिक से अधिक किसानों द्वारा इसका हिस्सा बनने से खुशी होगी। कृपया हमारे G.A.P. पुरस्कारों के लिए आवेदन करें और हमें दिखाएं कि आप वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना किस तरह से कर रहे हैं।” GLOBALG.A.P. के सीईओ क्रिस्चियन मोएलर ने कहा।

केवल GLOBALG.A.P. एकीकृत फार्म आश्वासन (IFA) मानक प्रमाणित उत्पादक और उत्पादक समूह (जिनमें एक या अधिक प्रमाणित उत्पादक शामिल हैं) इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदकों को एक आवेदन प्रारूप, व्यापार लोगो, PDF सार, तस्वीरें और संपर्क जानकारी को 30 अप्रैल 2022 तक जमा करना होगा। जून 2022 के अंत तक ये जज अपना चयन कर लेंगे। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण, आवेदन की अवधि को 2 सालों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है जो कि अगली GLOBALG.A.P. SUMMIT तक का समय है।

<https://www.globalgap.org/gapawards2022>

<https://www.globalgap.org/gapawards-applynow>

जुलाई 2022 के अंत तक GLOBALG.A.P. 4 विजेताओं और उनकी उपलब्धियों की घोषणा करेगा। प्रत्येक विजेता को GLOBALG.A.P. SUMMIT 2022 के दौरान होने वाले विशेष पुरस्कार समारोह का निमंत्रण मिलेगा। G.A.P. पुरस्कार 2022 विजेताओं को एक प्रमाणपत्र, मोहर और ट्रॉफी मिलेगी। GLOBALG.A.P. में प्रत्येक विजेता के लिए यात्रा और ठहरने की व्यवस्था का लागत शामिल है (1 व्यक्ति प्रति कंपनी)।

CropLife द्वारा प्रायोजित इस साल के पुरस्कार में चार मुख्य श्रेणियां शामिल होती हैं:

- कृषि में महिलाएं
- कृषि का प्रभाव:निगरानी और मूल्यांकन - पानी, जैव-विविधता आदि
- छोटे धारक/क्षमता निर्माण – localg.a.p./प्राथमिक फार्म आश्वासन (PFA) कार्यान्वयन
- स्थिरता के लिए नवाचार

मूल्यांकन मापदंड जांच सूची के आधार पर, जजों की एक टीम इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रक्रियाओं वाले उत्पादकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगी। उप-श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ट्रेस करने की क्षमता – IT/पारदर्शिता उपयोग
- साझेदारियों/सहयोगों पर जोर (सार्वजनिक, निजी आदि)
- अभिनव पद्धतियां/प्रौद्योगिकियां
- आर्थिक पहलू/ वर्धित मूल्य
- जुनून और शक्तिशाली कहानी
- जलवायु-दोस्ताना पद्धतियां/CO2 उत्सर्जन में कमी

जज कोविड-19 वैश्विक महामारी की अभिस्वीकृति के लिए आकलन करेंगे:

- कोविड-19 के प्रभाव और किस तरह से उत्पादकों ने इस वैश्विक महामारी का सामना किया है

GLOBALG.A.P. के बारे में

GLOBALG.A.P. एक अग्रणी वैश्विक प्रमाणन प्रोग्राम है, जिसका मिशन सीमित संसाधनों की रक्षा के लिए और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए सुरक्षित आहार के उत्पादन और विपणन के लिए किसानों और रिटेलरों को एक साथ लाना है।

www.globalgap.org

संपर्क:

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org.